

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 409]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 मई 2025 — वैशाख 12, शक 1947

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 मई 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 2) यथा संशोधित अधिनियम 2021 (2021 का सं. 23) की धारा 16 उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा, बोर्ड के समक्ष लंबित प्रकरणों की संख्या, लंबित रहने की अवधि, लंबित रहने की प्रकृति और इसके कारणों के पुनर्विलोकन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50 (पार्ट बी) दिनांक 29-07-2021 के माध्यम से गठित समिति का संशोधन करती है। समिति में निम्नानुसार सदस्य शामिल होंगे, अर्थातः—

- माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण — अध्यक्ष
 - प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग — सदस्य
 - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग — सदस्य सचिव
 - प्रतिनिधि सचिव और अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि — सदस्य
2. समिति प्रत्येक छः माह में बैठक करेगी तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 2) यथा संशोधित अधिनियम 2021 (2021 का सं. 23) के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादन करेगी।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.